



HB ESTATE DEVELOPERS LTD.

Regd. Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana)
Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbestate.com
Website : www.hbestate.com, CIN : L99999HR1994PLC034146

21st April, 2022

LISTING CENTRE

The Listing Department
BSE Limited,
Pheroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Company Code: 532334

Sub: - Newspaper Advertisement for loss of share certificate

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith the copy of the advertisements related to notice of loss of share certificate published in Business Standard (English & Hindi Edition) on Thursday, 21st April, 2022.

The copy of the said advertisements is also available on the website of the Company, www.hbestate.com .

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours truly,
For HB Estate Developers Limited

Radhika

RADHIKA KHURANA
(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As Above



GOVERNOR'S SECRETARIAT

JHARKHAND, RANCHI-834008

Tel - 0651 - 2283465, 2283466, 2283467 Fax - 0651 - 2284870

E-mail - jhrgov@jhr.nic.in

www.rajbhavanjharkhand.nic.in

ADVERTISEMENT

Applications are invited online for the post of 1st Registrar/ 1st Registrar (Examination) and 1st Finance Officer, Jharkhand State Open University, Ranchi.

Online applications are invited from interested eligible candidates having required qualifications for the post of :-

1st Registrar/ 1st Registrar (Examination) and 1st Finance Officer, Jharkhand State Open University, Ranchi.

All the instructions and link regarding submission of online application are available on website having URL www.rajbhavanjharkhand.nic.in or www.jharkhanduniversities.nic.in from 21st April, 2022 Thursday 00:00 HRS.

PR 268551 Governor (22-23)_D

O.S.D. (Judicial) to Governor -cum-
Co-ordinator, Search Committee

PUBLIC NOTICE

This is to inform the public at large that **Deenadhayan Ramakrishnan** (w.e.f. 26th March 2022), **Saipritam Madhav Amin** (w.e.f. 1st December 2021) and **Vinod Mahadev Agre** (w.e.f. 1st December 2021) are no more associated with the Company and their act and transactions not binding upon the Company and the Company is not responsible for the same.

From Brunel India Private Limited

UNITED SPIRITS LIMITED

Regd. Office: 'UB Tower', # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru-560 001.

Tel: +91 80 3985 6500; Fax: +91 80 3985 6862

Email: investor.india@diageo.com Website: www.diageoindia.com

Corporate Identity Number: L01551KA1999PLC024991

DIAGEO
INDIA

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the Company has received requests from the following shareholders for issue of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) reported to have been lost / misplaced. The share certificate(s) mentioned hereunder are therefore deemed to be cancelled and no transactions thereon would be recognized by the Company.

Sl. No	Folio No.	Name of the Shareholder	No. of Shares	Certificate Number	Distinctive Nos	
					From	To
01	MS211575	SHAMSUNDAR KONDIBA NIMBHORKAR	225	12117	726093876	726094100

The public are hereby advised against dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has / have any claims(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) along with all documentary evidences with the Company at its Registered Office within 10 days of the publication of this notice, after which no claim(s) will be entertained, and the Company will proceed to issue duplicate share certificates.

For UNITED SPIRITS LIMITED

Sd/-

Mital Sanghvi
(Company Secretary)

Place : Mumbai

Dated : 20.04.2022



HB ESTATE DEVELOPEERS LIMITED

CIN : L99999HR1994PLC034146

Regd. Off. : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

Ph. : +91-124-4675500,

Fax No. : +91-124-4370985

E-mail : corporate@hbestate.com,Website : www.hbestate.com

NOTICE

Notice is hereby given that Bhagauta Devi / Thakur Prasad Saroj, Joint Shareholder of the Company has requested for issuance of Duplicate Share Certificate for 11 Equity Shares of Rs. 10/- each in lieu of lost/misplaced Original Share Certificate No. 505554 having Distinctive Nos. 51734851 - 51734861.

The Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate in favour of the above named Shareholder, if no objection is received within 15 days from date of publication of this Notice.

For HB Estate Developers Limited
Sd/-

RADHIKA KHURANA

(Company Secretary)

M. No.: A32557

Date : 20.04.2022

Place : Gurugram

purpose only, and not a prospectus announcement.



Muthoot Finance Limited

ate Limited". Subsequently, by a fresh certificate of incorporation dated May 16, 2007, our name was changed to "Muthoot Finance Private Limited". Our Company was converted into a public limited company on 17 dated December 12, 2008.

CIN: L910KL1997PLC011300; PAN: AABCT0343B

Registered Office: Opposite Saritha Theatre Complex, Banerji Road, Kochi - 682 018, India.

Website : www.muthootfinance.com; Email : ncd@muthootgroup.com.Tel: (+91 484) 669 0255; Fax: (+91 484) 239 6506; E-mail : cs@muthootgroup.comTel: (+91 484) 2397156 Email: oommen@muthootgroup.com

AMOUNT OF ₹ 1,000 MILLION ("BASE ISSUE SIZE") WITH AN OPTION TO RETAIN OVERSUBSCRIPTION UP TO ₹ 4,000 MILLION AGGREGATING UP TO 50,00,000 NCDs AMOUNTING TO ₹ 5,000 MILLION ("TRANCHE I ISSUE SIZE"). THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANCHE I ISSUE ("TRANCHE I PROSPECTUS"), WHICH SHOULD BE READ TOGETHER WITH THE SHELF PROSPECTUS DATED MARCH 30, 2022 FILED WITH THE REGISTRAR AND ADDENDUM TO TRANCHE I PROSPECTUS DATED APRIL 1, 2022 CONSTITUTES THE PROSPECTUS ("PROSPECTUS"). THE ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECURITIES MADE THEREUNDER AS AMENDED TO THE EXTENT NOTIFIED.

PROMOTERS

muthoot@muthootgroup.com

George Thomas Muthoot

Tel: (+91 481) 2581012, Email: gt.muthoot@muthootgroup.com

"A+/(Stable)" by ICRA LIMITED

and further revalidated by rating letter dated March 23, 2022. The aforesaid rating of the NCDs by ICRA indicates high degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. The rating provided by ICRA and investors should take their own decisions. The rating of "ICRA AA+" by ICRA Limited indicate that instruments with these ratings are considered to have a high degree of safety regarding timely

and the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder to the extent notified.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY FOR THE MAIN OBJECTS AND THE OBJECTS INCIDENTAL AND ANCILLARY TO THE ATTAINMENT OF MAIN OBJECTS OF THE COMPANY. THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY IS AVAILABLE ON PAGE 280 OF THE SHELF PROSPECTUS AND ON PAGE 126 OF THE TRANCHE I PROSPECTUS.

